



25.04.2022

प्रेस नोट

सीबीएसई द्वारा कोविड को देखते हुए लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की परीक्षाएं 2022 में दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। टर्म - I की परीक्षाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और छात्रों के प्रदर्शन के बारे में स्कूलों को सूचित कर दिया गया है। कक्षा X और XII दोनों के लिए टर्म - II की परीक्षाएं 26 अप्रैल, 2022 से शुरू होंगी। दसवीं कक्षा की परीक्षा 29 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी और 24.05.2022 को समाप्त होगी। बारहवीं कक्षा की परीक्षा 51 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी और तदनुसार ये परीक्षाएं 15.06.2022 को समाप्त हो जाएंगी। दसवीं कक्षा में, सीबीएसई 75 विषयों में और बारहवीं कक्षा में 114 विषयों में परीक्षा आयोजित करेगा; सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए कुल विषय 189 होंगे। परीक्षा के अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

| कक्षा X | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------|-----------------|
| कुल स्कूल | कुल सेंटर | कुल छात्राएं | कुल छात्र | अन्य | कुल परीक्षार्थी |
| 22732 | 7406 | 894993 | 1221195 | 21 | 2116209 |

| कक्षा XII | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------|-----------------|
| कुल स्कूल | कुल सेंटर | कुल छात्राएं | कुल छात्र | अन्य | कुल परीक्षार्थी |
| 15080 | 6720 | 639202 | 815162 | 6 | 1454370 |

सीबीएसई ने भारत में और विदेशों में 26 देशों में परीक्षाओं के संचालन के लिए एक विस्तृत व्यवस्था की है। चूंकि परीक्षाएं COVID के बाद आयोजित की जाएंगी, इसलिए सीबीएसई ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। COVID के कारण, ये परीक्षाएं अप्रैल, मई और जून, 2022 में आयोजित की जा रही हैं।

पिछली दो परीक्षाओं में लागू किए गए सभी COVID मानदंडों का इस बार भी सख्ती से पालन किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सीबीएसई प्रत्येक परीक्षा केंद्र को इन्फ्रारेड थर्मामीटर की खरीद के लिए 5,000/- रुपये का भुगतान कर रहा है और परीक्षा परिसर में सफाई सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिदिन स्कूल के सेनेटाइजेशन के लिए और मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन की व्यवस्था करने के लिए प्रति उम्मीदवार 5 रुपये का भुगतान भी कर रहा है। सीबीएसई छात्रों और अभिभावकों को COVID प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए भी लिख रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा के संचालन



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा केंद्रों पर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को मिले, सीबीएसई ने आज एक वेबिनार आयोजित किया जिसमें 26,000 से अधिक स्कूलों और कर्मचारियों ने भाग लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल हों, सीबीएसई ने समय सारणी इस तरह से तय की है कि छात्रों को सभी विषयों में परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए केंद्रों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

डॉ. संयम भारद्वाज
परीक्षा नियंत्रक